



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUNA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बिस्त संश्रालय

(आधिकार्य विभाग)

(बैकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

3. उक्त स्कीम के खण्ड 11 के उपखण्ड (4), (5) और (6) के
स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायगा, अर्थात्—

“(4) जहाँ किसी निदेशक का पद रिक्त होता है वहाँ वह खण्ड
3 के अनुसार भरा जाएगा।”

[फा० सं० 4/3/82-बी० प्रो०-I (1)]

का० आ० 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों
का प्रवर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा
9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय
रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण
उपबंध) स्कीम*, 1970 का और संशोधन करने के लिए एनद्वांग निम्न-
लिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) यह स्कीम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध)
(संशोधन) स्कीम, 1984 कही जा सकेगी।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (जिसे
उपमें इनके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) में, खण्ड 9 के स्थान पर
निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

“9 अन्य निदेशकों की पदावधि:—खण्ड 3 के उपखण्ड (ख),
(ग), (घ), (ङ), (च), (छ) या (ज) के अधीन नियुक्त कोई
निदेशक केन्द्रीय सरकार के प्रसावपयल पद धारण करेगा।”

*मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का० प्रा० 3793 तारीख 16
नवम्बर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई और बाद में उक्त संशोधन
निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया:—

क्रम संख्यांक	का० प्रा० सं०	तारीख
1.	67(प्र)	17-11-71
2.	192(प्र)	15-3-72
3.	575(प्र)	4-9-72
4.	651(प्र)	25-9-72
5.	715(प्र)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(प्र)	21-6-76
10.	888(प्र)	11-11-80
11.	346(प्र)	30-4-83

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme*, 1970, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the said Scheme), for clause 9, the following clause shall be substituted, namely :—

"9. Term of office of other Directors.—A Director appointed under sub-clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) or (h) of clause 3 shall hold office during the pleasure of the Central Government."

3. In clause 11 of the said Scheme for sub-clauses (4), (5) and (6) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(4) Where any vacancy occurs in the office of a Director, it shall be filled in accordance with clause 3."

[No. F. 4/3/82-BO-I(1)]

*The Principal Scheme was published vide notification No.S.O. 3793, dated 16th November, 1970 and subsequently amended vide the following notifications :—

Sl.No.	S.O.No.	Date
1.	67(E)	17-11-71
2.	192(E)	15-3-72
3.	575(E)	4-9-72
4.	651(E)	25-9-72
5.	715(E)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(E)	21-6-76
10.	888(E)	11-11-80
11.	346(E)	30-4-83

का० आ० 145(अ):— केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और प्रन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम*, 1980 का और संशोधन करने के लिए एन-द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह स्कीम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1984 कही जा सकेगी।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 (जिसे, इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) में खंड 9 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9-अन्य निदेशकों की पदावधि :—खंड 3 के उपखंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) (छ) या (ज) के अधीन नियुक्त कोई निदेशक केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा"।

3. उक्त स्कीम के खंड 11 के उपखंड (1), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहाँ किसी निदेशक का पद रिक्त होता है वहाँ वह खंड 3 के अनुसार भरा जाएगा"।

[फा० सं० 4/3/82-बीसे आ० 1, (2)]

बी० के० सिबल, संयुक्त सचिव

*मूल स्कीम अधिसूचना संख्यांक का० आ० 875 (अ) तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई और बाद में उसका संशोधन अधिसूचना संख्यांक का० आ० 345 (अ) तारीख 30-4-1983 द्वारा किया गया।

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme*, 1980, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the said Scheme), for clause 9, the following clause shall be substituted, namely :—

"9. Term of office of other Directors.—

A Director appointed under sub-clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) or (h) of clause 3 shall hold office during the pleasure of the Central Government."

3. In clause 11 of the said Scheme for sub-clauses (4), (5) and (6) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(4). Where any vacancy occurs in the office of a Director, it shall be filled in accordance with clause 3."

[No.F.4/3/82-BO-I(2)]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

*The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 875(E), dated 4th November, 1980 and subsequently amended vide notification No. S.O. 345(E) dated 30-4-1983.